

प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 19.07.2022

शराब के विभिन्न ब्रान्ड्स के लगभग 1650 अवैध / नकली ढक्कन, 05 लीटर अवैध शराब व 02 मोटर साइकिल के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार। (थाना कोतवाली नगर)

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल के निर्देशन में अवैध शराब बिक्री / अवैध शराब बनाने की रोकथाम के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा निरंतर अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में कल दिनांक 18.07.2022 को आबकारी निरीक्षक श्री अमित कुमार मय टीम व चौकी इंचार्ज भुपियामऊ, थाना कोतवाली नगर उ0नि0 श्री राजेश कुमार शुक्ला मय टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर थाना क्षेत्र कोतवाली नगर के भुपियामऊ चौराहे के पास से दो मोटर साइकिलों पर सवार दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से शराब के विभिन्न ब्रान्ड्स के लगभग 1650 अवैध / नकली ढक्कन व 05 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। उक्त गिरफ्तार / बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 679/2022 धारा 60, 72 आबकारी अधि0 व धारा 419, 420 भादंवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि अवैध शराब व नकली ढक्कनों का कारोबार हम लोग अपने जीवनयापन के लिए करते हैं। हम लोगों को ये ढक्कन जनपद प्रयागराज के हमारे एक साथी द्वारा उपलब्ध कराए गये हैं जिन्हें हम यहां पर एक व्यक्ति को देने आए थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया

नोट-प्रकरण में संलिप्त अन्य अभियुक्तों को चिन्हित कर लिया गया है, जल्द ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण –

01. मो0 निजाम पुत्र मो0 जमील निवासी 168/330 मोहल्ला निहालपुर थाना करेली, जनपद प्रयागराज।
02. राहुल कुमार पुत्र विश्वनाथ सरोज निवासी ग्राम लच्छीपुर, बिहार थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

01. शराब के विभिन्न ब्रान्ड्स के लगभग 1650 अवैध / नकली ढक्कन।
02. एक पिपिया में 05 लीटर अवैध शराब।
03. दो अदद मोटर साइकिल।

पुलिस टीम-

01. आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 1 सदर श्री अमित कुमार मय टीम जनपद प्रतापगढ़।
02. उ0नि0 श्री राजेश कुमार शुक्ला मय टीम थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

चोरी की मोटर साइकिल के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार- (थाना जेठवारा)

जनपद के थाना जेठवारा के उ0नि0 श्री वरूण कुमार सिंह मय हमराह द्वारा दौरान मुखबिर की सूचना पर देखभाल क्षेत्र / चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के विकरा नहर रोड, मोड़, डेरवा बाजार के पास से एक व्यक्ति राजेन्द्र प्रसाद सिंह पुत्र स्व0 काशी प्रसाद सिंह निवासी ग्राम पत्तूपुर थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ को चोरी की एक अदद मोटर साइकिल हीरो होण्डा सुपर स्प्लेण्डर जिस पर गलत नम्बर अंकित है, के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तार / बरामदगी के संबंध में थाना जेठवारा पर मु0अ0सं0- 192/2022 धारा 411, 414, 419, 420 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राजेन्द्र प्रसाद सिंह पुत्र स्व0 काशी प्रसाद सिंह निवासी ग्राम पत्तूपुर थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

बरामदगी- चोरी की एक अदद मोटर साइकिल हीरो होण्डा सुपर स्प्लेण्डर।

पूछताछ का विवरण – पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि यह मोटर साइकिल चोरी की है जिस पर मैं गलत नम्बर प्लेट लगाकर चला रहा था, इसीलिए आप लोगों को देखर भाग रहा था। नोट – मोटर साइकिल के चेचिस नम्बर को ई-चालान एप्प पर चेक किया गया तो वाहन की सही पंजीयन संख्या यूपी 33 पी 7186, वाहस स्वामी इमरान खान पुत्र अजमेरी खान निवासी खिन्नी तल्ला जनपद रायबरेली होना पाया गया।

पुलिस टीम - उ0नि0 श्री वरूण कुमार सिंह मय हमराह थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार (थाना बाघराय)

जनपद के थाना बाघराय के उ0नि0 श्री सूर्य प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र / तलाश, वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 289/20 धारा 419/420/467/468/471 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त सुनील कुमार शुक्ला पुत्र खेमचन्द्र शुक्ला निवासी समा की सराय बेधन गोपालपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया व उ0नि0 श्री प्रभात वर्मा मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र / तलाश, वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 207/2022 धारा 366 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त फैजान पुत्र एजाज अहमद निवासी ग्राम बरीपाल थाना संजेती जनपद कानपुर नगर कुण्डा मोड़, बिहार तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

चोरी के अभियोग में वांछित 03 अभियुक्त चोरी की 01 मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार (थाना हथिगवां)

जनपद के थाना हथिगवां के उ0नि0 श्री सुधांषु सिंह मय टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र / तलाश, वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 145/2022 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 01.अभिषेक कुमार 02. लवकुष सिंह 03. हरिओम पाण्डेय को थाना क्षेत्र हथिगवां के मिश्रदयालपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर

उनके कब्जे से चोरी की एक अदद मोटर साइकिल नम्बर यूपी 72 एन 9521 हीरो होण्डा स्प्लेन्डर बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. अभिषेक कुमार तिवारी पुत्र बृजेश कुमार निवासी करनपुर मजरे हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।
02. लवकुष सिंह पुत्र हरिहर सिंह निवासी पूरेजीत मजरे हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ ।
03. हरिओम पाण्डेय पुत्र जयशंकर पाण्डेय निवासी सरैयगा प्रवेशपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी- चोरी की एक अदद मोटर साइकिल नम्बर यूपी 72 एन 9521 हीरो होण्डा स्प्लेन्डर

पुलिस टीम- उ0नि0 श्री सुधांशु सिंह मय टीम थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।